



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 2014/माघ 1, 1935

No. 145]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2014/MAGHA 1, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2014

का.आ. 150(अ).—भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 खण्ड(क) के अनुसरण में नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ(1) में उल्लेखित व्यक्ति को उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित क्षेत्रों के बाबत मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित विभिन्न उपभोक्ताओं तक वितरण के लिए, मैसर्स रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड (आर.जी.पी.एल.) जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय मेकर चैम्बर्स -IV (तीसरा तल), 222, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021 (महाराष्ट्र) [पत्राचार पता: प्रथम तल, एम.ए.बी, रिलायंस कॉर्पोरेट आई.टी. पार्क, ठाणे-वैलापुर रोड, घनसोली, नवी मुम्बई-400701 (महाराष्ट्र)] में है, द्वारा उनकी प्रस्तावित शहडोल (मध्य प्रदेश)-जयसिंग नगर-वेउहारी-गुरह-फूलपुर (उत्तर प्रदेश) गैस पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन विछाने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए, मध्य प्रदेश शासन के अधीन उनके वर्तमान कार्यों एवं दायित्वों के अतिरिक्त पदेन सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है :—

सारणी

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता	अधिकारिता के क्षेत्र
(1)	(2)
1. श्री रमेश मिश्र, रा.प्र.से. (पी-98) संयुक्त कलेक्टर, रीवा और पदेन सक्षम प्राधिकारी, रिलायंस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट द्वारा सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल (म.प्र.)।	मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिले

[फा.सं. एल-14014/28/2013-जी.पी.]

श्री प्रकाश अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2014

S.O. 150(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Central Government hereby authorizes the person mentioned in column (1) of the Table given below to perform the functions of the Competent Authority in an ex-Officio capacity under the said Act for laying of the pipelines by M/s. Reliance Gas Pipelines Limited (RGPL), having its Registered Office at 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai – 400021 (Maharashtra) [Address for Communication: 1st Floor, MAB, Reliance Corporate IT Park, Thane – Belapur Road, Ghansoli, Navi Mumbai–400701 (Maharashtra)] for transportation of natural gas through its proposed Shahdol (Madhya Pradesh)–Jaysing Nagar – Beohari – Gurh-Phulpur (Uttar Pradesh) pipeline for distribution to various consumers in the country in respect of the areas mentioned in column (2) of the said Table, in addition to his existing duties and responsibilities under State Government of Madhya Pradesh:—

TABLE

Name and address of persons (1)	Areas of jurisdiction (2)
1. Shri Ramesh Mishra, S.A.S.(P-98) Joint Collector, Rewa and ex-Officio Competent Authority, Reliance Gas Pipeline Project through Secretary (Coord.), Office of Chief Secretary, Mantralaya, Government of Madhya Pradesh, Bhopal (M.P.).	All districts of Madhya Pradesh

[F. No. L-14014/28/2013-GP]

S. P. AGARWAL, Under Secy.